

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव,
खनन,
उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग,
उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक,
वन निगम,
उत्तराखण्ड।

वित्त विभाग (बजट)

देहरादून :: दिनांक 25 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्ति के लक्ष्यों के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च, 2019 समय 04:30 PM में उनके कार्यालय सभागार में एक बैठक आहूत की गयी है।

अनुरोध है कि सम्यक सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

अपर सचिव (खनन)
कृपया बैठक हेतु
सूचनाएं प्रस्तुत करें।
25/03/19

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या / XXVII (1) / 2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।

J-S/50 (M)

25.3.19

(जितेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निजी सचिव-अपर सचिव,
मा0 मुख्यमंत्री, उद्यान
डेयरी, राजस्व विभाग/राजस्व
उत्तराखण्ड शासन

25-3-19

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

अर्पण कुमार राजू,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 26 मार्च, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्ति के लक्ष्यों के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 241/XXVII(I)/2019 दिनांक 25 मार्च, 2019 की छाया-प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्ति के लक्ष्यों के सन्दर्भ में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च, 2019 समय 04:30 अपरान्ह में उनके कार्यालय सभागार में एक बैठक आहूत किये जाने से संसूचित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्ति के लक्ष्यों के सन्दर्भ, में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च, 2019 समय 04:30 अपरान्ह को प्रस्तावित बैठक हेतु विभाग से संबंधित अद्यावधिक सूचनाएँ आज ही शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त बैठक में प्रतिभाग भी करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव।